



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 1972/श्रावण 18, 1894

No. 368] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 1972/SRAVANA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th August 1972

S.O. 531(E)/IDRA/15A/72.—Whereas the Seksaria Cotton Mills Ltd., Bombay, owning an industrial undertaking, is being wound up under the supervision of the Bombay High Court and the business of this company is not being continued;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary, in the interests of the general public, and, in particular, in the interests of production of cotton textiles to investigate into the possibility of restarting the aforesaid industrial undertaking;

And whereas on application being made by the Central Government to the Bombay High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Bombay High Court has granted the permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the Section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making investigation into the

possibility of restarting the aforesaid industrial undertaking, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri G. N. Vaidya, Director, Maharashtra State Textile Corp., Vashani Chambers, 47, New Marine Lines, Bombay-20.

Members

2. Shri R. C. Nigam, Deputy Director (Inspection), Office of the Regional Director, Company Law Board, "Everst", 5th Floor, 100, Marine Drive, Bombay-2.
3. Shri V. K. Modi, Regional Controller, National Textile Corporation, 15, Indu House, Narroftam Morarjee Marg., Ballard Estate, Bombay-1.

Member-Secretary

4. Shri V. N. Moralwar, Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F.3/27/72-C.U.C.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1972

का० आ० 531 (अ).—आइ डी आर ए/15ए/72 यतः संकसरिया काटन मिल्स लि०, बम्बई का जिसके स्वामित्व में औद्योगिक उपक्रम है, बम्बई उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन समापन किया जा रहा है और इस कम्पनी का कारखाना चालू नहीं रखा जा रहा है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जनसाधारण के हित में और विशिष्टतः सूती वस्त्र के उत्पादन के हित में यह आवश्यक है कि उपरोक्त उपक्रम को पुनः चालू करने की संभावना की जांच की जाये;

और यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय को ऐसी संभावना की जांच करने हेतु अनुज्ञा के लिए प्रार्थना आवेदन किए जाने पर बम्बई उच्च न्यायालय ने अनुज्ञा दे दी है ;

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उपरोक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनः चालू करने की संभावना की जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करके एक निकाय को एतद्वारा नियुक्त करती है:—

1. श्री जी० एन० वैद्य,

प्रध्यक्ष

निदेशक,

महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम, वाशानी चेम्बर्स,

47, न्यू मेरीन लार्ड्स, बम्बई 20।

2. श्री आर० सी० निगम,

सदस्य

उप निदेशक (निरीक्षण),

क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कम्पनी विधि बोर्ड

"एवरेस्ट", 5वीं मजिल, 100, मेरीन ड्राइव,

बम्बई-2।

3. श्री बी० के० मोदी, सदस्य
क्षेत्रीय नियंत्रक,
राष्ट्रीय वस्त्र निगम, 15, इन्दु हाउस,
नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट,
बम्बई-1 ।
4. श्री बी० एन० मोरलवार,
निदेशक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पोस्ट बैग सं० 11500, बम्बई-20 ।

[सं० फा० 3/27/72/सी० यू० सी०]

आर० के तलवार, संयुक्त सचिव ।

